

प्रेस विज्ञप्ति

### 100 से अधिक जामिया कर्मचारियों ने कोविड-19 से बचाव के लिए वेक्सिन ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 45 वर्ष से अधिक उम्र के सौ से अधिक शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आज कोविड-19 से बचाव के लिए 'कोविशिल्ड' वेक्सिन की पहली डोज दी गई। विश्वविद्यालय के डॉ. एम.ए. अंसारी स्वास्थ्य केंद्र में दो दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

पहली डोज लेने वाले कर्मचारियों को लगभग 30 मिनट तक वेक्सिन के किसी भी साइड-इफेक्ट का निरीक्षण करने के लिए ओब्सर्वेशन में रखा गया। शुक्र है कि कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। उन्हें पैरासिटामोल गोलियाँ भी दी गयीं जिससे अगर वे दर्द/ बुखार महसूस करते हैं तो उसका सेवन किया जा सके और उन्हें खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह भी दी गई।

कोविड-19 की जाँच के लिए आज विश्वविद्यालय के सभी स्वास्थ्य लाभार्थियों के लिए कुल 220 आरटी-पीसीआर निःशुल्क परीक्षण किए गए। कुल 276 परीक्षण किए गए थे। यह तीन दिवसीय टेस्ट ड्राइव का दूसरा दिन था। टेस्ट ड्राइव कल भी जारी रहेगा।

टेस्ट ड्राइव का आयोजन दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (डीएचएस), दिल्ली सरकार, एनसीटी के सहयोग से किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र ड्राइव के लिए सभी संभावित आपातकालीन व्यवस्थाओं से सुसज्जित है।

वेक्सिनेशन और आरटी-पीसीआर परीक्षण कुलपति, प्रो. नजमा अख्तर के निर्देश पर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखा गया है। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को जामिया टीचर्स एसोसिएशन और जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन से वेक्सिनेशन और आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया